

ARMY PUBLIC SCHOOL KALUCHAK

SESSION 2022-2023

HOLIDAY HOMEWORK (CLASS - I)

Dear Parents

Vacation is a welcome break!

Let's utilize this golden period in the best possible manner.

Please guide, motivate and facilitate your child to complete their holiday homework.




SUBJECT: ENGLISH


- ❖ Read L-8 and L-9 of your textbook and answer the following questions:
 - i) Do you think humans and animals can become friends?
 - ii) Why should we choose our friends carefully?
 - iii) Why should we share food with our friends?
 - iv) How can we take care of animals?
- ❖ Revise the given grammar topics-
 - a) Naming Words b) Pronouns c) Action words d) Describing words
 - e) Use of a/an f) Preposition
- ❖ Practice cursive writing one page every day in your notebook.

SUBJECT: HINDI

- ❖ पठित पाठ - शेर की दहाड़, मैना और मोर पाठ से संज्ञा शब्दों को गोला करें।
- ❖ दी गई मात्रा इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ की मात्रा के दस दस शब्द कॉपी पर लिखिए और सही उच्चारण करें।
(<https://youtu.be/97L36lcWx98>) मात्राओं के सही उच्चारण के लिए दिए गए लिंक को देखें।

SUBJECT: MATHS

- ❖ Learn Multiplication tables 2 to 10
- ❖ Make two figures with the help of slanting line , sleeping line 
, standing line  in your notebook.
- ❖ Draw clocks and show the daily routine of your mother on it. (atleast 5 daily routine)
e.g: If she wakes up at 8 am, draw a clock and show time on it.



- ❖ Go to the market along with your parents. Buy 5 things of your own choice. Make a checklist of the things you bought from the market along with the price given by you to the shopkeeper.

Items	Amount given
Item 1	
Item 2	
Item 3	
Item 4	
Item 5	
Total Amount	

- ❖ Practice Addition and Subtraction

Grade 1 Addition Worksheet

Find the sum.

$$\begin{array}{r} 1) \quad 14 \\ + \quad 21 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2) \quad 28 \\ + \quad 60 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3) \quad 22 \\ + \quad 71 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4) \quad 31 \\ + \quad 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 75 \\ - 44 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 52 \\ - 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 63 \\ - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 67 \\ - 43 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5) \quad 79 \\ + \quad 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6) \quad 72 \\ + \quad 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7) \quad 1 \\ + \quad 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8) \quad 87 \\ + \quad 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 41 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 73 \\ - 51 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 92 \\ - 41 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 67 \\ - 17 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9) \quad 16 \\ + \quad 60 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10) \quad 8 \\ + \quad 60 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11) \quad 12 \\ + \quad 66 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12) \quad 48 \\ + \quad 30 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ - 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 95 \\ - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 81 \\ - 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ - 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13) \quad 11 \\ + \quad 67 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14) \quad 9 \\ + \quad 80 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15) \quad 15 \\ + \quad 73 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16) \quad 60 \\ + \quad 14 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 91 \\ - 81 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29 \\ - 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \\ - 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 79 \\ - 47 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17) \quad 48 \\ + \quad 50 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18) \quad 46 \\ + \quad 32 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19) \quad 54 \\ + \quad 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20) \quad 73 \\ + \quad 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 65 \\ - 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ - 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 92 \\ - 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 59 \\ - 45 \\ \hline \end{array}$$

❖ Practice multiplication

Multiplication

$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 1 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

SUBJECT: EVS

- ❖ Whom do we call if there is a fire?
- ❖ What will happen if there is no sunlight on earth?
- ❖ Why should we not waste paper?
- ❖ How can we help stray animals?
- ❖ Can we count the stars in the sky?